



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100]
No. 100]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1984/चैत्र 11, 1906
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1984/CHAITRA 11, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 31 मार्च, 1984
सं० 93/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 254(अ):-केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80-सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, :-

- (1) पैरा 1 की मद (क) में, "सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क

के उस भाग से जो 15 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है," शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से; "शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

- (2) पैरा 2 में, "31 मार्च, 1984" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 मार्च, 1987" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा० सं० 355/274/83- सी० शु० 1]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 1984

NO. 93/84-CUSTOMS

G.S.R. 254(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the

Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 80-Customs, dated the 31st March, 1979 namely :—

In the said notification,—

- (i) in paragraph 1, in item (a), for the words, figures and brackets “so much of that portion of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of 15 per cent ad valorem” the words, figures and brackets “the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)”, shall be substituted;
- (ii) in paragraph 2, for the figures, letters and words “31st day of March, 1984”, the figures, letters and words “31st day of March, 1987” shall be substituted.

[F. No. 355/274/83-Cus. I]

सं० 94/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 255 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1984 के खंड 36 के उपखंड (4), जो खंड, अनंतिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक की घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनाना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 56/84-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं० 129 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० 355/274/83-सी० शु० 1]

NO. 94/84-CUSTOMS

G.S.R. 255(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 36 of the Finance Bill, 1984, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 56/84-Customs, dated the 1st March, 1984, namely :—

In the Schedule to the said notification, Serial No. 129 and the entry relating thereto shall be omitted.

[F. No. 355/274/83-Cus. I]

सं० 95/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 256 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व

विभाग) की अधिसूचना सं० 311-सीमाशुल्क, तारीख 22 नवम्बर, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, “31 मार्च, 1984” अंकों और शब्द के स्थान पर “31 मार्च, 1987” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 355/8/84-सी० शु० 1]

NO. 95/84-CUSTOMS

G.S.R. 256(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 311-Customs, dated the 22nd November, 1983, namely :—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words “31st day of March, 1984”, the figures, letters and words “31st day of March, 1987” shall be substituted

[F. No. 355/8/84-Cus. I]

सं० 96/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 257 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 16/84-सीमाशुल्क, तारीख 13 फरवरी, 1984 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, “31 मार्च, 1984” अंकों और शब्द के स्थान पर “31 मार्च, 1985” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 355/8/84-सी० शु० 1]

NO. 96/84-CUSTOMS

G.S.R. 257(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 16/84-Customs, dated the 13th February, 1984, namely :—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words “31st day of March, 1984”, the figures, letters and words “31st day of March, 1985” shall be substituted.

[F. No. 355/8/84-Cus. I]

सं० 97/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 258 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 157/82-सीमाशुल्क, तारीख 26 मई, 1982 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, :—

- (1) पैरा 1 में, “मूल्य के पच्चीस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “मूल्य के पैंतालीस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।;
- (2) पैरा 2 में, “31 मार्च, 1984” अंकों और शब्द के स्थान पर “31 मार्च, 1985” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 355/289/83-सीमाशुल्क-1]

NO. 97/84-CUSTOMS

G.S.R. 258(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 157/82-Customs, dated the 26th May, 1982, namely :—

In the said notification,—

- (i) in paragraph 1, for the words “twenty-five per cent ad valorem”, the words “forty-five per cent ad valorem” shall be substituted;
- (ii) in paragraph 2, for the figures, letters and words “31st day of March, 1984”, the figures, letters and words “31st day of March, 1985” shall be substituted.

[F. No. 355/289/83-Cus. I]

सं० 98/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 259 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1984 के खंड 36 के उपखंड (4), जो खंड, अंतिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर, विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 57/84-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1984 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं० 8 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० 355/289/83-सी० शु० 1]

NO. 98/84-CUSTOMS

G.S.R. 259(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 36 of the Finance

Bill, 1984, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 57/84-Customs, dated the 1st March, 1984, namely :—

In the Schedule to the said notification, Serial No. 8 and the entry relating thereto shall be omitted.

[F. No. 355/289/83-Cus. I]

सं० 99/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 260 (अ) :—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 2-सीमाशुल्क तारीख 1 जनवरी 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, “31 मार्च 1984” अंकों और शब्द के स्थान पर “30 जून 1984” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 355/265/83-सी० शु०-1]

NO. 99/84-CUSTOMS

G.S.R. 260(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 2-Customs, dated the 1st January, 1979 namely :—

In paragraph 2 of the said notification for the figures, letters and words “31st day of March, 1984”, the figures, letters and words “30th day of June, 1984” shall be substituted

[F. No. 355/265/83-Cus. I]

सं० 100/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 261 (अ) :—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 179-सीमाशुल्क तारीख 22 अगस्त 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में “31 मार्च 1984” अंकों और शब्द के स्थान पर “30 जून 1984” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 355/265/83-सी० शु०-1]

NO. 100/84-CUSTOMS

G.S.R. 261(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 179-Customs, dated the 22nd August, 1979, namely:—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words "31st day of March, 1984", the figures, letters and words "30th day of June, 1984" shall be substituted.

[F. No. 355/265/83-Cus II]

सं० 101/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 262 (अ) —केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 89-सीमाशुल्क तारीख 30 मार्च 1981 को अधिकांश करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है प्रिमीफौस मेथिल 25% डब्ल्यू० डी० पी० को जब उसका लोक स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मेरिथा उन्मूलन कार्यक्रम में अनिवार्य प्रयोग के लिए भारत में आयात किया जाता है —

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 54) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उदग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उदग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में और राशि के लिए बंधपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह उक्त प्रिमीफौस मेथिल 25% डब्ल्यू० डी० पी० की ऐसी मात्रा की बाबत जिसके बारे में सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं होता है कि उसका पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है मांग किए जाने पर उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में ऐसी मात्रा पर उदग्रहणीय शुल्क और आयात किए जाने के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच के अंतर के बराबर हो।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 355/275/83-सी०शु० 1]

NO. 101/84-CUSTOMS

G.S.R. 262(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department

of Revenue) No. 89-Customs, dated the 30th March, 1981, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Primiphos Methyl 25 per cent wdp, when imported into India for use exclusively in the National Malaria Eradication Programme for public health purposes, from—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act;

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and in such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand, in respect of such quantity of the said Primiphos Methyl 25 per cent wdp which is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1985.

[F. No. 355/275/83-Cus. II]

सं० 102/84-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 263 (अ) —केन्द्रीय सरकार वित्त विधेयक 1984 के खंड 36 के उपखंड (4) जो खंड अनंतिम कर-संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है के अधीन सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 56/84-सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च 1984 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 159 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० 355/275/84-सी०शु०-1]

राजेंद्र प्रकाश, अवर सचिव

NO. 102/84-CUSTOMS

G.S.R. 263(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 36 of the Finance Bill, 1984, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 56/84-Customs, dated the 1st March, 1984, namely:—

In the Schedule to the said notification, Serial No. 159 and the entry relating thereto shall be omitted.

[F. No. 355/275/83-Cus. II]

RAJENDRA PRAKASH, Under Secy.